ऋणों की वसली की सचना ओए नं 257/2023 दिनांकः 06.07.2024 आईडीबीआई बैंक लिमिटेड बनाम आवेदक लक्ष्मण सिंह एवं अन्य प्रतिवादी

सेवा में, प्रतिवादी

डी1—लक्ष्मण सिंह पुत्र लाखी राम

डी2– श्रीमति पिंकी पत्नी लक्ष्मण सिंह **दोनों यहाँ परः** मकान नं. 155/2 गांव तुमसरा तहसील होडल, जिला फ़रीदाबाद, हरियाणा

जबकि उपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरूद र 36,37,202.50 / — (रुपये छत्तीस लाख सैंतीस हजार दो सौ दो और पचास पैसे मात्र) की वसूली के लिए एक मुकदमा स्थापित किया है तथ जबँकि न्यायाधिकरणँ को समाधानप्रद रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप रं सचना दिया जॉना संभव नहीं है। इसलिए विज्ञापन र रूप में इस सचना के माध्यम से आपको दिनांक **15.10.2024 ें को प्रातः 10:30 बजे** माननीर पीठाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया

उपस्थित नहीं होने पर इस मामले पर आपकी अनुपस्थिति में मामले की सुनवाई और निर्णय लिया

अधिकारिक पोर्टल यानी drt.gov.in पर शीर्षक सार्वजनिक सूचना के तहत उपलब्ध होगा। (स) किसी भी प्रकार की अन्य अनिवार्य सूचना के लिए, अधिवक्ता / वादी संबंधित अधिकारी से **फोन नं**.

न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा अनुभाग अधिकारी,

डीआरटी-II, दिल्ली

यह ध्यान रखें कि उपरोक्त निर्धारित तिथि के

सभी मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लिया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए:– (अ) सभी अधिवक्ता / वादी **सिस्को वीबेक्स** एप्लीकेशन / साफ्टवेअर डाउनलोड करेंगे। (ब) अगली तारीख की सुनवाई के लिए 'मीटिंग आईडी' और **पासवर्ड** माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार द्वारा लिया जाएगा जोकि डीआरटी के

011—23748478 पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 06 जूलाई, 2024 को दिया गया।

एसहारा जनसम्बान्य को तथा विशेष रूप से कॉलम ने - 🔥 में अफित फर्नेदार(सें) एवं जमानदी(यीं) को सुबना दी जाती है कि प्रतिश्तत लेनदा के पास संघक/प्रधायित कॉलम दी में नीचे यणित अचल सम्पत्ति(यी), जिसक एसहारा अब तक संशोधित प्रतिभूति हित प्रचर्तन नियम, 2002 के नियम 8(6) एयं ९ के तहत कॉलम \Lambda में ऑकत कर्महार (सें)/बंधककर्ता(ओं)/बंधिक उत्तराधिकारी(ओं), विधिक प्रतिनिधि (चाहे ज्ञात या अज्ञात), एक्सीक्यूटरी प्रसासक (वर्ष), उत्तराधिकारी(वर्ष), संबंधित कर्जदर्शे वंधककर्ता (औ) (मृतक) के एसाइनी(वर्ष), नैसा मामला हो, को एतद्वारा सूचना दी जाती है। विक्री के विस्तृत निषम एवं शती के लिए क्रपण मैससे पीएनकी शार्थींग फड़नेंस लिमिटेड (पीएनवी एकएफरल), प्रतिबृत लेनदार की वेबसड़ट www.pnbhousing.com देखें। भार कोई केस. प्रमानी( ये ) विधिक उत्तरिकतिये feffer (B) (mrd) (E) आसी का 10 store 500 वृद्धि स एवं समय m 112 (A) 1871 चीर चीर्र (K)

जाखा कार्यालयः अएस-17, दूसरी बंजिल क्रीन पार्क एक्सटेशन, नई दिल्ली-110016

जनसता

<u>प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम</u>

2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

HOU/GRP/0518/535353 10.10.2024 97 22,10,2024 107 यफ-3, प्रथम तत, चित्रले बांदें राथ की और 21.10.2024 feet state आबिल बीतम:अल्पम गर्मा (बारेटर) 2,006,913.13 17,25,000 10,000 10.00 वर्षे पूर्वा से | 2.00 समें अग. से रवॉट में. वॉ-३०, कार्यामा गार्टन एक्टरेंगन III. 1,72,500 THE 14 11 2003 .30 पत्रे अप. तथ D3:00 माने अम

'लांच हो 18% को दर से वंबाइकोरच बार्च कराब, आक्रांसक काय, लागत, इपल आदि वो बुगतान तथा अथवा रत्नको वसूलों को तिथि तक हुए हैं। 🔭 चीत्रकों हार्डमिन कहर्नेस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी के सर्वोत्तम जन में कॉलम सं. 🕻 प्रकटित की छोड़कर उपपुक्त अवलायतिश्व के राज्य में कोई अन्य क्ष्वभार को ती। पुनः ऐसे क्ष्य भार सफल क्षेत्र।याँचावार द्वारा अपने यांचित्य पर विधे आये किये जायेंग। सम्याचित केता औ) गाँचावारों में उत्तिवित क्ष्यायों की . अब तक उपपुंका अचन सम्पन्ति प्रतिभूत असिनायों की विक्री, एलिनिएट करने तथा अवया निस्तारण से पीएनवी एचएफएन पीएनवी एचएफएन के अधिकृत प्रधिकारी की प्रतिवर्धियत करने का कोई आदेश तथा कोई इककान नहीं है और स्थिति कॉलम

. सम्बद्धित केल नोविक्कार तथा एक्क पारियां वेशनको एकापराम के पाम उपलब्ध स्वामित्व के दरलकेलों से सम्बन्धित मानित महित कालम-💃 में उरित्यक्तित कार्यवाही पानित आहेश आहे में सम्बन्धित स्वान्य मिरीक्षण कर सकती हैं और अपनी निरिद्यापांचित अर्थेरन प्रथम नमा करने च प्रस्तव करने से पूर्व संभी पक्षें में म्यद को सन्नुष्ट कर सकती हैं। स्विध्यकार(सें) को सचित प्रथम के माथ इस नीनामी के निषम एवं शती पर हरताकर करना होगा। 3. कुपमा ध्यान दें कि प्रतिभृति कित (प्रवर्तन) निगम, 2002 के निगम ०(३) के सन्दर्भ में संविद्धकर फ्रेंना विक्री सूच्य का 25% (जमा धरोतर साँग, पदि कोई हो, साँगत) उसी दिन वा वा अधिकतम अगले दिन जमा करने के लिए खल्य होगा। यह विक्री प्रतिभृति हित (प्रपत्ति) नियम, 2002 के नियम १(2) के अनुसार प्रतिभृत नेनदार द्वारा किकी मुल्य के 25% रहिर की व्यति ही सिंदाकार(रॉ) के पक्ष में पुष्टि को व्यतिनेत रहिर केना द्वारा विक्री पुष्टि का को पानती की तरीक से 15 दिनों के चीना जब करानी होगी और ऐसी जमा राति जब करने में विफल होने पर, प्राधिकृत अधिकारी विक्री पूर्वि पत्र में उल्लिकर 15 दिनों की अधिकार अर्थाय की सर्वोत्र की सर्वोत्र के 15 दिनों के चीनर विक्री प्रतिपत्न सति के अधिकार

भुरतान को जरत कर लेगा और संपीत/प्रतिभूत परिसंपीत को सरफेतो अधिनियम के प्रायथानों के अनुसार पुनः येथा जाएगा। a. मेरातं रहे। इंडिय प्राफ़ेट निमिटेय ई-निलामें के मध्यम से विक्रों के संबालन में प्राचिकत अधिकारों की सरावान करेगा, जिसका कॉमीटेट कार्यालय पनीट संख्या as, तीमारी मीजल, सेवटर 44, गुरारांव, शरिवाण 122003 पर है, विवास www.bankeauctions.com. संपत्ति के निरोधन में संपत्तित किसी में सहायता या केली दानादेज प्रता करने और किसी अन्य पृष्ठतक वा पंजीकरण के लिए, आपको बी पदन कुमार, टोल पूर्व नंबर: 1820120 8800, ई-मेल: auctiom@pubblous ing.com के साथ समन्यय करना होता, जो पीरनबीएचएफएल के अधिकृत व्यक्ति हैं या www.pabhousing.com का सीरने में i

इ. - अधिकृत प्राधिकारी, पीएनबी शाजीमग फाइनेस लिपिटे

स्थान : ग्रीनपानं, तिथि : ०१.१०.३०२४

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS"). INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES (AS DEFINED IN THE DRHP) IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SEBI ICDR REGULATIONS. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA

## PUBLIC ANNOUNCEMENT



Code to view the DRHP)

बाईस हजार दो सौ

ग्यारह मात्र)

हजार मात्र)

(a) pnb Housing



## MIDWEST LIMITED

Our Company was incorporated on December 11, 1981 at Hyderabad in the erstwhile state of Andhra Pradesh, India as 'Midwest Granite Private Limited', a private limited company under the Companies Act, 1956 and was granted a certificate of incorporation by the Registrar of Companies, Andhra Pradesh at Hyderabad. Subsequently, pursuant to a special resolution passed by our Shareholders dated May 7, 2024, the name of our Company was changed to 'Midwest Private Limited' and a fresh certificate of incorporation dated July 2, 2024 was issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre. Our Company was then converted into a public limited company under the Companies Act, 2013 pursuant to a special resolution passed by our Shareholders dated July 15, 2024, and consequently, the name of our Company was changed to 'Midwest Limited' and a fresh certificate of incorporation dated August 28, 2024 was issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre. For further details in relation to changes in the name and the registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 273 of the draft red herring prospectus dated September 30, 2024 (the "DRHP" or the "Draft Red Herring Prospectus"). Registered and Corporate Office: 8-2-684/3/25 & 26, Road No.12, Banjara Hills, Hyderabad 500 034, Telangana, India

Corporate Identity Number: U14102TG1981PLC003317 OUR PROMOTERS: MR. KOLLAREDDY RAMA RAGHAVA REDDY, MR. KOLLAREDDY RAMACHANDRA,

Contact Person: Mr. Rohit Tibrewal, Company Secretary and Compliance Officer; Tel: +91 40 2330 5194; E-mail: cs@midwest.in; Website: www.midwest.in

## MRS. KUKRETI SOUMYA AND MRS. UMA PRIYADARSHINI KOLLAREDDY

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [ • ] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5 EACH ("EQUITY SHARES") OF MIDWEST LIMITED (OUR "COMPANY" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [+] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ [+] PER EQUITY SHARE) (THE "OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ 6,500.00 MILLION (THE "OFFER") COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO [●] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 2,500.00 MILLION BY OUR COMPANY (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO [●] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 4,000.00 MILLION COMPRISING AN OFFER FOR SALE OF UP TO [●] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 3,600,00 MILLION BY KOLLAREDDY RAMA RAGHAVA REDDY ("PROMOTER SELLING SHAREHOLDER") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO [●] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 400.00 MILLION BY GUNTAKA RAVINDRA REDDY (THE "PROMOTER GROUP SELLING SHAREHOLDER", AND TOGETHER WITH THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER. REFERRED TO AS THE "SELLING SHAREHOLDERS". AND EACH INDIVIDUALLY, AS A "SELLING SHAREHOLDER" AND SUCH OFFER FOR SALE OF EQUITY SHARES BY THE SELLING SHAREHOLDERS, THE "OFFER FOR SALE").

THIS OFFER INCLUDES A RESERVATION OF UP TO [●] EQUITY SHARES, AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION (CONSTITUTING UP TO 5% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL), FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES (AS DEFINED HEREINAFTER) ("EMPLOYEE RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BRLMS, MAY OFFER A DISCOUNT OF UP TO ₹ [•] TO THE OFFER PRICE (EQUIVALENT OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE) TO ELIGIBLE EMPLOYEES BIDDING IN THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION ("EMPLOYEE DISCOUNT"). THE OFFER AND THE NET OFFER SHALL CONSTITUTE [ • ]% AND [ • ]%, RESPECTIVELY, OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

OUR COMPANY MAY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS, CONSIDER A FURTHER ISSUE OF SPECIFIED SECURITIES FOR CASH CONSIDERATION AGGREGATING UP TO ₹ 500.00 MILLION, PRIOR TO FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS WITH THE REGISTRAR OF COMPANIES, TELANGANA AT HYDERABAD ("ROC", AND SUCH FURTHER ISSUE, THE "PRE-IPO PLACEMENT"). THE PRICE OF THE SPECIFIED SECURITIES ALLOTTED PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT SHALL BE DETERMINED BY OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS ("BRLMS"). PRIOR TO THE COMPLETION OF THE OFFER AND IF THE PRE-IPO PLACEMENT IS UNDERTAKEN, OUR COMPANY SHALL APPROPRIATELY INTIMATE THE SUBSCRIBERS TO THE PRE-IPO PLACEMENT. PRIOR TO ALLOTMENT PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT, THAT THERE IS NO GUARANTEE THAT OUR COMPANY MAY PROCEED WITH THE OFFER OR THE OFFER MAY BE SUCCESSFUL AND WILL RESULT IN LISTING OF THE EQUITY SHARES ON THE STOCK EXCHANGES. FURTHER, RELEVANT DISCLOSURES IN RELATION TO SUCH INTIMATION TO THE SUBSCRIBERS TO THE PRE-IPO PLACEMENT (IF UNDERTAKEN) SHALL BE APPROPRIATELY MADE IN THE RELEVANT SECTIONS OF THE RHP AND PROSPECTUS. IF THE PRE-IPO PLACEMENT IS COMPLETED, THE AMOUNT RAISED PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT WILL BE REDUCED FROM THE FRESH ISSUE, SUBJECT TO COMPLIANCE WITH RULE 19(2)(b) OF THE SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) RULES, 1957, AS AMENDED (THE

"SCRR"). THE PRE-IPO PLACEMENT SHALL NOT EXCEED 20% OF THE SIZE OF THE FRESH ISSUE. THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 5 EACH AND THE OFFER PRICE IS [+] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE PRICE BAND (INCLUDING EMPLOYEE DISCOUNT, IF ANY) AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BRLMS AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF THE ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER, [ • ], ALL EDITIONS OF THE HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER, [ • ] AND THE [ • ] EDITION OF THE TELUGU DAILY NEWSPAPER, [ • ] (TELUGU BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF TELANGANA, WHERE OUR REGISTERED AND CORPORATE OFFICE IS LOCATED), EACH WITH WIDE CIRCULATION, AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SUCH ADVERTISEMENT SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE BSE LIMITED (THE "BSE") AND THE NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED (THE "NSE", AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar unforeseen circumstances, our Company may, in consultation with the BRLMs, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/Offer Period for a minimum of one Working Day, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Offer Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the respective websites of the BRLMs and at the terminals of the Syndicate Members and by intimation to the other Designated Intermediaries and the Sponsor Banks, as

The Offer is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the SCRR read with Regulation 31 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended (the "SEBI ICDR Regulations") and in compliance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations, wherein not more than 50% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs", and such portion"), provided that our Company may, in consultation with the BRLMs, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis, in accordance with the SEBI ICDR Regulations (the "Anchor Investor Portion"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price, in accordance with the SEBI ICDR Regulations. In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the remaining QIB Portion ("Net QIB Portion"). Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from the Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation will be added to the remaining QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price, out of which (a) one-third of such portion shall be reserved for Bidders with application size of more than ₹ 200,000 and up to ₹ 1,000,000; and (b) two-thirds of such portion in either of such sub-categories may be allocated to Bidders in the other sub-category of Non-Institutional Bidders; and not less than 35% of the Net Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. Further, Equity Shares will be allocated on a proportionate basis to Eligible Employees applying under the Employee Reservation Portion, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price (net of Employee Discount, if any, as applicable). All Bidders (except Anchor Investors) are mandatorily required to utilize the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA accounts and UPI ID in case of UPI Bidders using the UPI Mechanism, as applicable, pursuant to which their corresponding Bid Amount will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or by the Sponsor Banks under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of the respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to

participate in the Offer through the ASBA process. For further details, see "Offer Procedure" beginning on page 482 of the DRHP. Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with Securities and Exchange Board of India ("SEBI") shall be made available to the public for comments, if any, for period of at least 21 days, from the date of filing by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, on the websites of the Stock Exchanges i.e., BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com where the equity shares are proposed to be listed, the websites of the BRLMs, i.e. DAM Capital Advisors Limited at www.damcapital.in, Intensive Fiscal Services Private Limited at www.intensivefiscal.com and Motilal Oswal Investment Advisors Limited at www.motilaloswalgroup.com and the website of our Company at www.midwest.in. Our Company hereby invites the public to give their comments on the DRHP filed with SEBI, with respect to disclosures made in the DRHP. The members of public are requested to send a copy of their comments to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLMs at their respective addresses mentioned herein below. All comments must be received by SEBI and/or our Company and/or the BRLMs and/or the Company Secretary and Compliance Officer of our Company at their respective addresses mentioned herein below in relation to the Offer on or before 5:00 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filling the DRHP with SEBI.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and Bidders should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their investment. Bidders are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, Bidders must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares in the Offer have neither been recommended, nor approved by the SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the Contents of the Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the Bidders is invited to "Risk"

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be made after the red herring prospectus ("Red Herring Prospectus") has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such Red

Herring Prospectus as there may be material changes in the Red Herring Prospectus from the DRHP. The Equity Shares, when offered through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on the main board of BSE and NSE.

For details of the main objects of the Company as contained in its memorandum of association, see "History and Certain Corporate Matters" on page 273 of the DRHP.

**BOOK RUNNING LEAD MANAGERS** 

The liability of the members of the Company is limited. For details of the share capital, capital structure of the Company and the names of the signatories to the memorandum of association and the number of shares subscribed by them see "Capital Structure" on page 87 of the DRHP.

D/M CAPITAL	Tensive
DAM Capital Advisors Limited One BKC, Tower C, 15th Floor, Unit No Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai 400 051 Maharashtra, India Tel: +91 22 4202 2500 E-mail: midwest.ipo@damcapital.in Website: www.damcapital.in Investor grievance e-mail: complaint( Contact Person: Chandresh Sharma / Puneet Agnihotri	Free Press Journal Marg, Nariman Point, Mumbai 400 021 Maharashtra, India Tel: + 91 22 2287 0443 E-mail: Midwest.ipo@intensivefiscal.com Website: www.intensivefiscal.com Investor grievance e-mail: grievance.ib@intensivefiscal.com Contact Person: Harish Khajanchi / Anand R

Place: Hyderabad

हस्ता/- (प्राधिकृत अधिकारी)

(अरण्य – ट्रस्ट)

MOTILAL OSWAL INVESTMENT TAXKING Motilal Oswal Investment Advisors Limited Motilal Oswal Tower, Rahimtullah Sayani Road

Opposite Parel ST Depot, Prabhadevi, Mumbai 400 025 Maharashtra, India Tel: +91 22 7193 4380 E-mail: midwest.ipo@motilaloswal.com Website: www.motilaloswalgroup.com Investor grievance e-mail: moiaplredressal@motilaloswal.com Contact Person: Kunal Thakkar/ Sankita Ajinkva

REGISTRAR TO THE OFFER Kfin Technologies Limited

Selenium Tower-B, Plot No. 31 & 32, Financial District Nanakramguda, Serilingampally Hyderabad 500 032 Telangana, India Tel: +91 40 6716 2222 E-mail: midwest.ipo@kfintech.com Website: www.kfintech.com Investor grievance e-mail: einward.ris@kfintech.com Contact Person: M. Murali Krishna SEBI Registration No.: INR000000221

SEBI Registration No.: INM000011005 SEBI Registration No.: MB/INM000011336 SEBI Registration No.: INM000011112 All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For MIDWEST LIMITED On behalf of the Board of Directors

Date : October 1, 2024 Company Secretary and Compliance Officer MIDWEST LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP dated September 30, 2024 with SEBI and with the Stock Exchanges i.e., BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com, on the websites of the BRLMs, i.e. DAM Capital Advisors Limited at www.damcapital.in, Intensive Fiscal Services Private Limited at www.intensivefiscal.com and Motilai Oswal Investment Advisors Limited at www.motilaloswalgroup.com and the website of our Company at www.midwest.in. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see the section titled "Risk Factors" on page 31 of the DRHP and the RHP, when filed by the Company in the future. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI and the Stock Exchanges,

1933, as amended ("U.S. Securities Act") and shall not be offered or sold within the United States, Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold only outside the United States in "offshore transactions" as defined in, and in reliance on, Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made.

This announcement does not constitute an invitation or offer of securities for sale in any jurisdiction, including India. The Equity Shares offered in the Offer have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of

Rohit Tibrewal

जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड कॉपोरेंट पहचान संख्याः U67190MH2007PLC74287 **IJM FINANCIAL** पंजीकृत कार्यालयः ७वीं मंजिल, सिनर्जी, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई 400025 वेबसाइट : www.jmfinancialarc.com

कर्जदारों से देय राशि की वसूली के लिए सरफैसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिभृति ऋणदाता के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा यहां उल्लिखित प्रतिभृति संपत्ति पर कब्जा करने के अनुसरण

ई-नीलामी बिक्री सूचना-नवीन बिक्री

संपर्क व्यक्तिः 1. निक्की कुमार- 9650606340, 2. रोहन सावंत- 98331430133, 3. प्रशान्त मोंडे- 022 - 6224 1676, यह कि पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले देवन हाउसिंग एंड फाइनेंस कॉपोरेंशन लिमिटेड के नाम से) ने वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('सरफेसी अधिनियम') की धारा 5 (1) (बी) के तहत सभी अधिकारों, स्वामित्व और हित के साथ अंतर्निहित प्रतिभति हित के साथ जेएमएफएआरसी- अरण्या- ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत जेएमएफएआरसी (जेएम) (इसके बाद असाइनी के रूप में संदर्भित) के पक्ष में 29 मार्च, 2023 के एक असाइनमेंट समझौते ('असाइनमेंट एग्रीमेंट') के माध्यम से ऋण का एक पूल (नीचे उल्लिखित ऋण सहित) सौंपा है। सूचित किया जाता है कि पीसीएचएफएल को असाइनमेंट⁄सेवा अनुबंध के माध्यम से सभी परिचालन और प्रक्रिया प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए सेवा प्रदाता/संग्रह एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत और नियुक्त किया गया है।

में, नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जो भौतिक कब्जे में है, की 'जैसा है जहां है के आधार पर', 'जैसा है जो है के आधार पर' और 'जो कुछ भी है वहीं है के आधार पर' खरीद के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है: मांग सूचना की बकाया राशि तिथि तथा राशि ( ईएमडी ) कोड/शाखा/कर्जदार/ (27-09-2024) (आरपी का सह-कर्जदार/गारंटर 10%) लोन कोड अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः– ईंडब्ल्यूएस ₹. 154500/-(रुपये पन्द्रह 18-11-2016, (रुपये एक सं.: 01400004001 फ्लैट नंबर 9/3-बी, ग्राउंड फ्लोर पॉकेट-7, सेक्टर 'रुपये उनतीस लाख लाख पैंतालीस ₹. 1401134/-. नई दिल्ली (शाखा), लाख चौवन 82 नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301 में सीमाएं इस प्रकार चौंतीस हजार एक सौ हजार मात्र) (रुपये चौदह लाख कुलदीप चंद (कर्जदार), हजार पांच सौ हैं:- उत्तरः प्रवेश दक्षिणः अन्य फ्लैट पूर्वः पार्क सत्तावन मात्र) एक हजार एक सौ सुदेश कुमारी (सह-कर्जदार 1) मात्र) पश्चिमः सडक चौंतीस मात्र) ₹. 6555000/-₹. 655500/-अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः- फ्लैट नंबर ₹. 14854207/-लोन कोड सं.: (रुपये पैंसठ 21-09-2017, (रुपये छह लाख (रुपये एक करोड़ 01400003998, नई दिल्ली 265, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक-2 केंद्रीय विहार, सेक्टर-₹. 5369544/-. पचपन हजार अड़तालीस लाख 82 नोएडा उत्तर प्रदेश 201301 में सीमाएं इस प्रकार शाखा), कुलदीप चंद हजार मात्र) रुपये तिरपन लाख पांच सौ मात्र) चौवन हजार दो सौ (कर्जदार), सुदेश कुमारी हैं:- उत्तर : अन्य संपत्ति दक्षिण: प्रवेश पूर्व: लिफ्ट उनहत्तर हजार पांच सात मात्र) पश्चिमः पार्क (सह-कर्जदार 1) सौ चौवालीस मात्र) अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः– फ्लैट नंबर 🕏 रु. 2500000/-दिनांक: लोन कोड सं.: ₹. 250000/-₹. 5383583/-(रुपये पच्चीस 23-04-2019, 27900001320, ग्रेटर नोएडा एसएफ-01 दूसरी मंजिल सामने की तरफ बाईं ओर (रुपये दो लाख (रुपये तिरपन लाख लाख मात्र) रु. 2957020/-छत के अधिकार के साथ, प्लॉट नंबर 391, सेक्टर-(शाखा), सुरेश सिंह पचास हजार तिरासी हजार पांच (रुपये उनतीस 12 प्रताप विहार गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पिन सौ तिरासी मात्र) (कर्जदार), सौरभ सिंह (सह-कर्जदार 1) | 201009 सीमाएं इस प्रकार हैं:- उत्तरः प्लॉट नंबर-बीस मात्र) का-390 दक्षिणः सड़क 30 फीट चौड़ी पूर्वः सड़क

40 फीट चौड़ी पश्चिमः प्लॉट सं. केए-392 दिनांक: ₹. 3415804/-, ₹. 2732400/ ₹. 273240/-लोन कोड सं.: अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः– गड्ढा सं. 18 14-06-2021, (रुपये सत्ताईस (रुपये दो लाख (रुपये चौंतीस लाख और 19,2 देवदार, पीछे की ओर (दाहिना भाग) 9000001451, राज नगर रु. 2984809/-लाख बत्तीस तिहत्तर हजार दो पन्दह हजार आठ सौ प्राइवेट फिट सं. 204, खसरा सं. 20/2 भाग), गांव-शाखा), सुभाष कुमार (रुपये उनतीस हजार चार सौ सौ चालीस मटियाला, जैन कलिनरी, पश्चिमी दिल्ली 110059 चार मात्र) राम (कर्जदार), रेनू देवी लाख चौरासी हजार मात्र) सीमाएं इस प्रकार हैं:- उत्तरः अन्य संपत्ति दक्षिण (सह-कर्जदार 1) संपत्ति का हिस्सा सामने की ओर और सड़क पूर्व गली-10 फीट पश्चिमः संपत्ति का हिस्सा बाईं ओर और उसके बाद आर लोन कोड सं.: ₹. 1450000/-अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः- फ्लैट सं. ₹. 2722211/-(रुपये चौदह 09600001512, नई (रुपये एक (रुपये सत्ताईस लाख जी/54 ए, छत के अधिकार के बिना सामने का लाख पचास

अन्य की संपत्ति ई-नीलामी की तिथि: 12-11-2024, प्रात: 11.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

हिस्सा, गांव मिजार्पुर महावीर एन्क्लेव नई दिल्ली

110045 सीमाएं इस प्रकार हैं:– उत्तरः संपत्ति

का हिस्सा उसके बाद सर्विस लेन दक्षिणः गली

15 फीट चौड़ी पूर्वः अन्य की संपत्ति पश्चिमः

बोली जमा करने की अंतिम तिथि: 11-12-2024, शाम 4.00 बजे तक। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://www.jmfinancialarc.com/ Home/Assetsforsale या https://www.bankauction.in पर दिए गए लिंक को देखें।

कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता को सरफेसी अधिनयम के तहत वैधानिक 30 दिनों की बिक्री नोटिस उपर्युक्त कर्जदार/गारंटर को सचित किया जाता है कि वे धारा 13(2) में उल्लिखित राशि को नीलामी की तारीख से पहले अर्जित ब्याज के साथ पूरी राशि का भुगतान करें, अन्यथा संपत्ति की नीलामी/बेच दी जाएगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, कर्जदार/गारंटर से ब्याज और लागत सहित वसल किया जाएगा। दिनांक: 02-10-2024, स्थान: दिल्ली हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकारी), (अरण्या-ट्रस्ट)

दिल्ली-पश्चिम (शाखा)

महेंद्र राघव (कर्जदार),

(सह-कर्जदार 1)

मीनू राघव

₹. 1590466/-.

्रुपये पन्द्रह लाख

नब्बे हजार चार सौ

छियासठ मात्र)

जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड JM FINANCIAL कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U67190MH2007PLC74287 पंजीकृत कार्यालयः 7वीं मंजिल, सेनर्जी, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई 400025

वेबसाइट - www.jmfinancialarc.com संपर्क व्यक्ति : 1. निक्की कुमार - 9650606340 2. रोहन सावंत - 9833143013 3. प्रशांत मोंडे - 022- 6224 1676

ई-नीलामी बिक्री सुचना - आगामी बिक्री पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने 29 मार्च, 2023 के असाइनमेंट एग्रीमेंट (''असाइनमेंट एग्रीमेंट'') के माध्यम से वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ( सरफेसी अधिनियम ) की धारा 5 (1) (बी) के तहत जेएमफएआरसी (जेएम) (जिसे यहां असाइनी के रूप में संदर्भित किया गया है) के पक्ष में जेएमएफएआरसी (जेएम) –अरण्य – ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए ऋण (नीचे उल्लिखित ऋणों सहित) के एक पूल को अंतर्निहित सुरक्षा हित के साथ–साथ उस पर सभी अधिकार, शीर्षक और ब्याज के साथ असाइन किया है। यह सूचित किया जाता है कि पीसीएचएफएल को असाइनमेंट / सेवा समझौते के माध्यम से सभी परिचालन और प्रक्रियाओं की प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए सेवा प्रदाता / संग्रह एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अधिकत और नियक्त किया गया है।

उधारकर्ता / ऋणकर्ताओं से देय राशि की वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्जा लेने के अनुसरण में, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अचल संपत्ति की खरीद के लिए नीचे हस्तक्षरकर्ता द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते

हैं, जो कब्जे में है, ''जहां है जैसा ह'' के आधार पर, ''जो कुछ भी है जैसा ह'' के आधार पर, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

ऋणकोड / शाखा / उधारकर्ता (ओ / सह—उधारकर्ता(ओ ) / गारंटर(ओ )	मांग सूचना की तिथि और राशि	संपत्ति का पता ऋअंतिम	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी) (आरपी का 10प्रतिशत)	बकाया राशि (27—09—2024)
ऋण कोड संख्याः 19000002027, राज नगर (शाखा), मुनीश एम (उधारकर्ता), प्रियंका पी (सह उधारकर्ता 1)	दिनांकः 23—04—2019, रु. 1082056 / —, (रु.दस लाख बयासी हजार छप्पन मात्र)	संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसका विस्तार है:— फ्लैट नंबर 06 यूजीएफ रियर साइड मिडिल प्लॉट नंबर—सी117 डॉ अंकुर विहार लोनी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001 में सीमाएं:— उत्तर: अन्य प्लॉट दक्षिण: सड़क 40 फीट चौड़ी पूर्व: प्लॉट नंबर—सी—1/8 पश्चिम: प्लॉट नंबर—सी—16	रु. 584000 / —, (रु.पांच लाख चौरासी हजार मात्र)	रु. 58400 / –, (रु. अड्डावन हजार चार सौ मात्र)	रु. 2167586/—, (रु. इक्कीस लाख सरसठ हजार पांच सौ छियासी मात्र)
ऋण कोड संख्याः 11900002708, नोएडा (शाखा), राघव शिवरतन (उधारकर्ता), राघव राजेश्वरी (सह उधारकर्ता 1)	दिनांकः 24–05–2021, रु. 1039220 / –, (रु.दस लाख उनचालीस हजार दो सौ बीस मात्र)	संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसका विस्तार है:- फ्लैट नंबर-जीएफ-2, ग्राउंड फ्लोर, पीछे की ओर, प्लॉट नंबर-31, ब्लॉक-जे, सेक्टर-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201009 में सीमाएं:- उत्तर: प्लॉट नंबर-जे-26 दक्षिण: सड़क 25 फीट चौड़ी/फ्लैट नंबर-जीएफ-1/ प्रवेश पूर्व: फ्लैट नंबर-जीएफ-3/ प्लॉट नंबर-जे-32 पश्चिम: प्लॉट नंबर-जे-30	रु. 952000 / —, (रु. नौ लाख बावन हजार मात्र)	रु. 95200 / –, (रु. पंचानबे हजार दो सौ मात्र)	रु. 1808828 / –, (रु. अठारह लाख आठ हजार आठ सौ अड्डाईस मात्र)
ऋण कोड संख्याः 25600001104, कड़कड़डूमा नोएडा (शाखा), नदीम अहमद (उधारकर्ता), अंसार एन (सह उधारकर्ता 1)	दिनांक: 16-06-2020, रु. 1075518/, (रु.दस लाख पचहत्तर हजार पांच सौ अठारह मात्र)	संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसका विस्तार है:— फ्लैट संख्या—5 / 133बी, दूसरी मंजिल, ईडब्ल्यूएस फ्लैट सेक्टर—5, काम अपार्टमेंट, सेक्टर—5, वैशाली, उत्तर प्रदेश 201010 में सीमाएं:— उत्तर: सड़क 12 फीट चौड़ी दक्षिण: फ्लैट संख्या—134—बी पूर्व: सड़क 15 फीट चौड़ी पश्चिम: फ्लैट संख्या—132—बी	रु. 1102000 / —, (रु. ग्यारह लाख दो हजार मात्र)	रु. 110200 / —, (रु. एक लाख दस हजार दो सौ मात्र)	रु. 1193215 / —, (रु. ग्यारह लाख तिरानबे हजार दो सौ पंद्रह मात्र)
ऋण कोड संख्या:26600001154, दिल्ली राजौरी गार्डन (शाखा), राजेंद्र कुमार (उधारकर्ता), प्रीति खन्ना (सह—उधारकर्ता 1)	दिनांकः 26–09–2019, रु. 1588763 / , (रु.पंद्रह लाख अठासी हजार सात सौ तिरसठ मात्र)	संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसका विस्तार है:— प्रोप नंबर—48—बी, दूसरी मंजिल, खा नंबर—28/2, गली नंबर—4, राधेश्याम पार्क, गांव—खुरेजी खास, राधा किशन मंदिर के पास, दिल्ली 110051 में सीमाएं:— उत्तरः गली 10 फीट दक्षिणः प्लॉट नंबर—48 का हिस्सा पूर्वः प्लॉट नंबर—49 पश्चिमः प्लॉट नंबर—47	रु. 1486000 / —, (रु. चौदह लाख छियासी हजार मात्र)	रु. 148600 / –, (रु. एक लाख अड़तालीस हजार छह सौ मात्र)	रु. 2062182 / –, (रु. बीस लाख बासठ हजार एक सौ बयासी मात्र)
ऋण कोड संख्या:19000001855, राज नगर (शाखा), नितिन नानक वैद्य (उधारकर्ता), बक्शो वैद्य (सह—उधारकर्ता 1)	दिनांकः 21–06–2022, रु. 1119640 / –, (रु.ग्यारह लाख उन्नीस हजार छह सौ चालीस मात्र)	संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसका विस्तार है:— पलैट नंबर—एसएफ—2, दूसरी मंजिल पीछे आरएचएस प्लॉट नंबर—8/1 खसरा नंबर—157 कैलाश पुरम, रईसपुर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201002 में सीमाएं:— उत्तरः अन्य संपत्ति दक्षिणः प्रवेश/अन्य संपत्ति पूर्वः फ्लैट नंबर—एफएफ—1/सड़क पश्चिमः अन्य की संपत्ति	रु. 990000 / –, (रु. नौ लाख नब्बे हजार मात्र)	रु. 99000 / –, (रु. निन्यानबे हजार मात्र)	रु. 1538351 / –, (रु. पन्द्रह लाख अड़तीस हजार तीन सौ इक्यावन मात्र)
ऋण कोड संख्याः 2790000120, ग्रेटर नोएडा (शाखा), मोनिका सिंह (उधारकर्ता), अशोक सिंह (सह–उधारकर्ता 1)	दिनांकः 26—12—2017, रु. 2911347/—, (रु. उनतीस लाख ग्यारह हजार तीन सौ सैंतालीस मात्र)	संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसका विस्तार है:— प्लॉट संख्या 335 ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर—5 वसुंधरा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201010 सीमाएँ:— उत्तरः प्लॉट संख्या— 336 दक्षिणः प्लॉट संख्या— 334 पूर्वः सड़क पश्चिमः अन्य की संपत्ति	रु. 2043000 / –, (रु. बीस लाख तैंतालीस हजार मात्र)	रु. 204300 / —, (रु. दो लाख चार हजार तीन सौ मात्र)	रु. 6559175 / —, (रु. पैंसठ लाख उनसठ हजार एक सौ पचहत्तर मात्र)
ऋण कोड संख्याः 19600044347, दिल्ली – सफदरजंग (शाखा), हरीश (उधारकर्ता), अनीता (सह—उधारकर्ता 1)	दिनांकः 24–05–2021, रु. 1582313 / , (रु.पंद्रह लाख बयासी हजार तीन सौ तेरह मात्र)	संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसकी सीमा है:— एच. नंबर 1/9920, आरएचएस तीसरी मंजिल छत के साथ गली नंबर 1—जी, खं. नंबर— 541/300, पश्चिम गोरख पार्क, दिल्ली 110032 में सीमाएं:— उत्तरः प्लॉट का अन्य यूनिट हिस्सा दक्षिणः प्लॉट नंबर 1/9914 पूर्वः निजी गली पश्चिमः गली	रु. 1203300 / —, (रु. बारह लाख तीन हजार तीन सौ मात्र)	रु. 120330 / –, (रु. एक लाख बीस हजार तीन सौ तीस मात्र)	रु. 2498938 / –, (रु. चौबीस लाख अड्डानबे हजार नौ सौ अड़तीस मात्र)
ऋण कोड संख्या:14600000959, मेरठ (शाखा), विकास यादव (उधारकर्ता), तम यादव (सह उधारकर्ता 1)	दिनांक: 08–10–2021, रु. 1516812/, (रु.पंद्रह लाख सोलह हजार आठ सौ बारह मात्र)	संपत्ति का समस्त टुकड़ा और पार्सल जिसका विस्तार है:— एच.ऑन ख.सं.48 खटखा मोह. का भाग न्यू मिक्षी पुरम के पीछे खटखा चौराहा के पास, गांव कसेरू बक्सर, उत्तर प्रदेश पिन 250001 सीमाः उत्तरः ममता पत्नी श्री मनोहर का घर, दक्षिणः श्री विजय सोनकर का घर, पूर्वः 12'—0.'' फीट चौड़ी सड़क, पश्चिमः श्रीमती गीता चौहान पत्नी श्री जना का घर	रु. 1812000 / —, (रु. अठारह लाख बारह हजार मात्र)	रु. 181200 / –, (रु. एक लाख इक्यासी हजार दो सौ मात्र)	रु. 2241410 / —, (रु. बाईस लाख इकतालीस हजार चार सौ दस मात्र)
ऋण कोड संख्याः 19800041748, दिल्ली – पीतमपुरा (शाखा), माला (उधारकर्ता), सतीश कुमार (सह—उधारकर्ता 1) अमीत कुमार (गारंटर 4)	दिनांक: 26–07–2019, रु. 2167692 / –, (रु. इक्कीस लाख सरसठ हजार छह सौ बानबें मात्र)	संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसका विस्तार है:— प्लॉट संख्या—689, दूसरी मंजिल, पीछे की सड़कें, शक्ति खंड—एलआईआई, आवासीय कॉलोनी, इंदिरापुरम, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पिन 201014 सीमाएँ:— उत्तरः प्लॉट संख्या—688/अन्य फ्लैट दक्षिणः प्लॉट संख्या—690 पूर्वः अन्य प्लॉट पश्चिमः सड़क/प्रवेश	रु. 2005200 / – , (रु. बीस लाख पाँच हजार दो सौ मात्र)	रु. 200520 / –, (रु. दो लाख पाँच सौ बीस मात्र)	रु. 4226402 / – , (रु. बयालीस लाख छब्बीस हजार चार सौ दो मात्र)
ऋण कोड संख्याः 26600000455, दिल्ली राजौरी गार्डन (शाखा), निरंदर सिंह (उधारकर्ता), दलजीत कौर	दिनांक: 24–05–2021, रु. 1324103 / –, (रु. तेरह लाख चौबीस हजार एक	संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसका विस्तार है:— प्लॉट संख्या —283/47 ए, दूसरी मंजिल बिना छत के अधिकार के, गांव ख्याला पश्चिम ब्लॉक दिल्ली 110018 सीमाएँ:— उत्तरः	रु. 1670000 / —, (रु. सोलह लाख सत्तर हजार	रु. 167000 / —, (एक लाख सरसठ हजार मात्र)	रू. 2194972 / —, (इक्कीस लाख चौरानबे हजार नौ सौ बहत्तर मात्र)

डब्ल्जेड-283 / 48 ई-नीलामी की तिथिः 24-10-2024. प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)।

हिस्सा पश्चिमः प्लॉट संख्या

चौबीस हजार एक गली 10 फीट दक्षिणः प्लॉट का हिस्सा पूर्वः प्लॉट

सौ तीन मात्र)

दलजीत कौर

(सह–उधारकर्ता 1)

दिनांकः 02.10.2024

स्थानः दिल्ली

बोली जमा करने की अंतिम तिथि: 23-10-2024, शाम 4.00 बजे से पहले। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://www.jmfinancialarc.com/Home@Assetsforsale या https://www.bankauctions.in प

मात्र)

दिए गए लिंक को देखें। उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता को सरफेसी अधिनियम के तहत वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना उपर्युक्त उधारकर्ता / गारंटर को सुचित किया जाता है कि वे धारा 13(2) में उल्लिखित राशि को नीलामी की तारीख से पहले अर्जित ब्याज के साथ पूरी राशि का भूगतान करें, अन्यथा संपत्ति की नीलामी / बेच दी जाएगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, चुका दिया जाएगा। उधारकर्ता / गारंटर से ब्याज और लागत सहित वसूल किया गया।

www.readwhere.com

and should instead rely on the RHP, for making any investment decision.